



एनसीसी क्रियाकलाप 2021-2022



एनसीसी देश का सबसे बड़ा सैन्य प्रशिक्षित युवा संगठन है। इसमें एनसीसी कैडेटों की संख्या 13 लाख से अधिक है। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। यह भारतीय सेना का अभिन्न अंग है। एनसीसी के माध्यम से कैडेटों में एकता, अनुशासन, आत्मविश्वास और लीडरशिप की भावना को बढ़ावा मिलता है। महाविद्यालय स्तर पर एनसीसी, सीनियर विंग का संचालन होता है जिसमें 3 वर्ष का कोर्स होता है। यहां ड्रिल, राइफल प्रैक्टिस, सेना की सामान्य जानकारी, फील्ड क्राफ्ट एवं बैटल क्राफ्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ युद्ध कौशल में निपुण कराया जाता है। कैडेटों में साहसिक कौशल के निर्माण के लिए ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग आदि के कैंप कराए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष थल सेना कैंप (टीएससी), रिपब्लिक डे कैंप (आरडीसी), इंटरग्रुप कंपटीशन (आईजीसी) और सीएटीसी (कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप) का आयोजन किया जाता है। इन कैंपों में कई यूनिट और शहरों के कैडेट आते हैं जिससे आपस में भाईचारा और राष्ट्रभक्त की भावना का विकास होता है।



महाविद्यालय स्तर पर एनसीसी की सीनियर विंग/ डिवीजन का संचालन किया जा रहा है। इस कंपनी में 154 एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण प्राप्त होता है जिसमें महिला कैडेट की संख्या लगभग 50 है। महाविद्यालय की सब यूनिट; मिर्जापुर एनसीसी बटालियन से संबंध है; जिसका ग्रुप हेड क्वार्टर वाराणसी बी है। महाविद्यालय स्तर पर एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। महाविद्यालय में वर्ष में 10- 10 दिन के 3 प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया जाता है। बटालियन स्तर पर वर्ष में दो CATC कैंप का आयोजन होता है जिसमें कम से कम एक कैंप में प्रतिभाग करना अनिवार्य होता है।



इसके अतिरिक्त टीएससी,आरडीसी, आईजीसी आदि कैंप भी समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। 9 नवंबर से 16 नवंबर 2021 में 7 दिन के लिए महाविद्यालय की 6 एनसीसी SW कैडेट दार्जिलिंग में ट्रेकिंग कैंप का अवसर प्राप्त हुआ था। 3 अक्टूबर 2021 से 12 अक्टूबर 2021 तक एनसीसी बटालियन मिर्जापुर में सीएटीसी का एनसीसी कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें कैडेटों को योगा, मेडिटेशन, राइफल प्रैक्टिस, राइफल ड्रिल, स्पीच कंपटीशन, कल्चरल एक्टिविटीज आदि की ट्रेनिंग दी गई थी | 21 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें राइफल प्रैक्टिस, राइफल ड्रिल, परेड ,पायलटिंग ,युद्ध कौशल से संबंधित शिक्षण आदि का आयोजन किया गया था। महाविद्यालय से पुनः 6 SW कैडेट का चयन नवंबर 2022 में दार्जिलिंग में आयोजित होने वाले ट्रेकिंग कैंप के लिए किया गया है। दिनांक 24 जून 2022 को 4 SD और 2 SW कैडेट का चयन टीएससी कैंप के लिए किया गया है। वर्तमान में मिर्जापुर बटालियन में उनका ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है।



जनजागरूकता अभियान में महाविद्यालय की एनसीसी सब यूनिट का योगदान - फिट इंडिया

मूवमेंट के तहत अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष में 21 जून 2021 को महाविद्यालय के 56 एनसीसी कैडेटों ने योगाभ्यास का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 22 जुलाई 2021 से 28 जुलाई 2021 के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी के कैडेटों द्वारा रैली, नुक्कड़ नाटक, स्पीच और निबंध कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 44 छात्रों ने सक्रिय सहभागिता प्रदान की। एनसीसी निदेशालय लखनऊ के निर्देशानुसार 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 के बीच स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जिसमें रैली, पोस्टर कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, महाविद्यालय और अन्य सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई का कार्य एनसीसी कैडेटों द्वारा किया गया। इसमें यूनिट के समस्त 139 एनसीसी कैडेटों ने सहयोग किया। खाद्य एवं पोषण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिला खाद्य विभाग द्वारा 'ईट फूड ईट राइट' अभियान के तहत दिनांक 24 एवं 25 दिसंबर 2021 को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें महाविद्यालय की एनसीसी इकाई ने रैली, पोस्टर कंपटीशन और खाद्य मेले को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें लगभग 42 एनसीसी कैडेटों ने प्रतिभाग किया।



भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा 25 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस मनाया गया जिसमें महाविद्यालय की 88 एनसीसी कैडेटों ने निर्वाचन जन जागरूकता रैली का आयोजन किया जिसमें भदोही जनपद की जिलाधिकारी महोदया ने भी प्रतिभाग किया। 26 जनवरी 2022 को महाविद्यालय में उत्साहपूर्वक गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय की एनसीसी यूनिट ने गणतंत्र दिवस पर परेड मार्च का आयोजन किया। साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए एनसीसी कैडेटों ने पायलटिंग की।



प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला के निवेदन पर महाविद्यालय की एनसीसी इकाई ने निर्वाचन जन जागरूकता रैली का आयोजन 26 फरवरी 2022 को किया, जिसमें 34 एनसीसी के कैडेट शामिल हुए थे। 25 और 26 मई 2022 को सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। साथ ही निबंध और भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें 42 एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। भारत सरकार की 'अग्निपथ योजना' के तहत महाविद्यालय की एनसीसी यूनिट के कैडेटों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भदोही जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय ने दिनांक 20 जून 2022 को एनसीसी छात्रों के साथ एक कांफ्रेंस बैठक आयोजित की जिसमें 30 से अधिक एनसीसी कैडेट शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष में 21 जून 2022 को विभूति नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें महाविद्यालय के 45 एनसीसी कैडेटों ने योगाभ्यास का संदेश जन सामान्य को दिया।



Details of ncc activities session 2021-22

Name of the activity	Organising unit/agency/collaborating agency	Name of the scheme	Year of the activity	Number of NCC Cadet participation in such activities
Fit India Movement	3/101 NCC Sub Unit KNPG Gyanpur	International Yoga Day	21 June 2021	56
Road Safety Week	Transport Dept. U.P. Govt.	Road Safety Week	22.7.2021 To 28.7.2021	44
Participation And appreciation award	District Administration	Mission Sakti Abhiyan	4.9.2021	14
Yoga, meditation , Rifle Practice ,Pared Drill Practice, Rifle Drill Practice, Class Teaching (Army Rules, Arms & Ammunition information,G.K. etc.), Debate Competition, Speech competition , Cultural Activities etc	101 NCC Battalion Mirzapur	NCC Tanning Camp	03.10.2021 To 12.10.2021	65
Rifle Practice ,Pared Drill Practice, Rifle Drill Practice, Class Teaching (Army Rules, Arms & Ammunition information,G.K. etc.)	3/101 NCC Sub Unit KNPG Gyanpur	10 days Training Pared	21.12.2021 To 30.12.2021	139
Rally, poster competition, speech , cleanness abhiyan in mahavidyalaya, hospital and other public	3/101 NCC Sub Unit KNPG Gyanpur	Swachata Pakhwara	16.12.2021 To 31.12.2021	139

place.				
Rally, poster competition and mela organisation	Food Department With the help of ncc cadet	Eat Food Eat Right Abhiyan	25.12.2021	42
Election Awareness Rally	District Administration	National Election Day	25.01.2022	88
Republic Day parade	Ncc sub unit knpg	Republic Day calibration	26.01.2022	56
Election Awareness Rally	Amar ujala news paper gyanpur	Election Awareness Rally	26.02.2022	34
Road safety awareness rally	Up road transport department	Conduct by ncc sub unit knpg gyanpur	25.5.2022	42
Agnipath yojna related ncc cadet conference	District police administration gyanpur	Conduct in police line gyanpur	20.6.2022	30
Ajadi ka amrit mahotshav	International Yoga Day	ncc sub unit knpg gyanpur	21.6.2022	45